

तुरंत रिलीज के लिए

## 2020 के ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स के लिए खास निवासी को नामांकित करें!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (6 जनवरी, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 2020 के ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स (Brampton Citizens Awards) के लिए नामांकन स्वीकार कर रही है। 16 फरवरी, 2021 से पहले, खास एथलीट्स, वालंटियर्स या लोकल हीरोज को नामांकित करें।

ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स, उन निवासियों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने 2020 के कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्थपूर्ण योगदान दिया है या निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में खास उपलब्धि हासिल की है:

- **स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवॉर्ड (Sports Achievement Award)** ब्रैम्पटन के उन निवासियों को सम्मानित करता है, जिनकी उपलब्धियों को प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।
- **केन गाइल्स ऐमचर एथलीट ऑफ द यीअर अवॉर्ड (Ken Giles Amateur Athlete of the Year Award)** उस खास व्यक्ति को दिया जाता है, जिसने अपनी संबंधित स्पोर्ट में गैर-पेशेवर स्तर पर महत्वपूर्ण असर डाला है और/या असाधारण उपलब्धि हासिल की है।
- **आर्ट्स अकलेम अवॉर्ड (Arts Acclaim Award)** उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है, जिनके योगदानों ने, लोकल, प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण असर डाला है।
- **लॉन्ग टर्म सर्विस अवॉर्ड (Long Term Service Award)** उन समर्पित वालंटियर्स को सम्मानित करता है, जिनके प्रयासों ने, रेक्रिएशनल स्पोर्ट्स, कला और सामुदायिक सोशल सर्विसिज के विकास और उन्नति पर महत्वपूर्ण असर डाला है।
- **इंस्पिरेशनल अवॉर्ड (Inspirational Award)** ब्रैम्पटन के उन निवासियों को सम्मानित करता है, जो मनुष्य के हितों के लिए किए जाने वाले (मानव हितैषी) कार्यों की हिमायत करते हैं या खुद ऐसे काम करते हैं, या जिन्होंने दूसरों पर प्रेरणा देने वाला असर डाला है।
- **एमरजेंसी सर्विसिज अवॉर्ड ऑफ वेलर (Emergency Services Award of Valour)** ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करता है, जिन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए बहादुरी वाला काम करते हुए, वालंटियर के तौर पर अपने जीवन को जोखिम में डाला।
- **सिटीजन्स ऑफ द यीअर अवॉर्ड्स (Citizens of the Year Awards)** ब्रैम्पटन के हर उम्र के उन वालंटियर्स को सम्मानित करता है, जिन्होंने 2020 में, जोशीली, समर्पित सामुदायिक भागीदारी दर्शाई है।

एक सलेक्शन कमेटी (Selection Committee) को सभी नामांकनों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस कमेटी में, अवॉर्ड श्रेणियों में विषय संबंधी विशेषज्ञता वाले सामुदायिक मेम्बर्स के साथ-साथ, शहर के चुने हुए अफसर, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services), ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स अलाइंस (Brampton Sports Alliance), ब्रैम्पटन सीनियर्स काउंसिल (Brampton Seniors Council) और पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police) शामिल हैं।

**2019 के ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स**

कोविड-19 (COVID-19) के कारण, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 2019 के ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स प्राप्त करने वालों को सम्मानित करने के लिए, व्यक्तिगत कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाई। जिन्हें 2019 में अवॉर्ड मिले हैं, उन्हें इस वर्ष, 2020 के अवॉर्ड प्राप्त करने वालों के साथ सम्मानित किया जाएगा।

**हवाले**

“ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स, खास ब्रैम्पटन निवासियों को सम्मानित करने के एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन अवॉर्ड्स में गर्व छिपा हुआ है। ये हर किसी को हमारे समुदाय में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारे नागरिकों के अर्थपूर्ण योगदानों के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं। आज ही किसी निवासी को नामांकित करें!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स, 1974 से हमारे समुदाय में एक परंपरा है। हम हमारे समुदाय में सम्मानित करने के लिए, ब्रैम्पटन के उन एथलीट्स, वालंटियर्स और हीरोज को ढूँढ रहे हैं, जिन्होंने 2020 में हर समय हमारे शहर में महत्वपूर्ण असर डाला है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, सिटीजन्स अवॉर्ड्स कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“2020 के ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स के लिए नामांकन अब शुरू हो गए हैं! हर वर्ष, हम इन अवार्डों के लिए प्रस्तुतियों का असाधारण स्कोप देखते हैं। ब्रैम्पटन के निवासी, रोज़ाना हमारे शानदार शहर में असल में बदलाव लाते हैं। सलेक्शन कमेटी को बेसब्री से, इस वर्ष के नामांकित व्यक्तियों को देखने और अवॉर्ड हासिल करने वालों को चुनने की प्रतीक्षा है।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापॉरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन, बदलाव लाने वालों से भरपूर है। ब्रैम्पटन सिटीजन अवॉर्ड्स, हमारे समुदाय में उनके खास योगदानों को सम्मानित करते हैं। एथलीट्स, वालंटियर्स से लेकर लोकल हीरोज तक, अपने पसंदीदा किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करें, जिसने 2020 में शानदार असर डाला है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे



## Media Release

बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)